



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2526]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 16, 2010/अग्रहायण 25, 1932

No. 2526]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 16, 2010/AGRAHAYANA 25, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2010

सं. 12 (आर ई-2010)/2009-2014

विषय : विदेश व्यापार महानिदेशालय के पास कॉटन निर्यात संधिदाओं के पंजीकरण के संबंध में ।

का.आ. 2975(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा, तत्काल प्रभाव से, अधिसूचना सं. 6 (आर ई-2010)/2009-2014 दिनांक 30-9-2010 के साथ पठित अधिसूचना संख्या 58/2009-2014 दिनांक 17-8-2010 की क्रम संख्या 161क [आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण] में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

2. अधिसूचना सं. 6 (आर ई-2010)/2009-2014 दिनांक 30-9-2010 के साथ पठित अधिसूचना संख्या 58/2009-2014 दिनांक 17-8-2010 की मौजूदा प्रविष्टियां निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती हैं :—

अध्याय-52

क्रम. सं.	प्रशुल्क मद कोड	इकाई	मद का विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
161क	5201		कॉटन, कार्डेड अथवा कोम्ब्ड न हो		कॉटन के निर्यात के लिए
	5201 00		कॉटन, कार्डेड अथवा कोम्ब्ड भारतीय	मुक्त	संधिदाएं पोतलदान से पूर्व
			कॉटन न हो		विदेश व्यापार महानिदेशालय
	5201 00 11		बंगाल देशी	मुक्त	के पास पंजीकृत की जाएंगी ।
	5201 00 12		20.5 एमएम (25/32") और उससे	मुक्त	सीमा-शुल्क अधिकारियों
			कम स्टैपल लम्बाई का भारतीय कॉटन		द्वारा कॉटन के खेपों की
			(अर्थात् अमरस, यैलो पिकिंग, असम		निकासी, यह जांचने के
			कॉमिल्लास)		बाद की संधिदा पंजीकृत
					कर ली गई हैं, की जाएंगी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	5201 00 13	20.5 एमएम (26/32") से अधिक लेकिन 24.5 एमएम (30/32") से अधिक न हो, स्टैपल लम्बाई का भारतीय कॉटन		मुक्त	
	5201 00 14	24.5 एमएम (31/32") से 28 एमएम तक स्टैपल लम्बाई का भारतीय कॉटन		मुक्त	
	5201 00 15	28.5 एमएम (14/32") और इससे अधिक किन्तु 34.5 एमएम से कम स्टैपल लम्बाई का भारतीय कॉटन		मुक्त	
	5201 00 19	34.5 एमएम और इससे अधिक (112/32") की सभी स्टैपल लम्बाई का भारतीय कॉटन		मुक्त	
	5201 00 20	कॉटन, भारतीय को छोड़कर, सभी स्टैपल लम्बाइयों के		मुक्त	
	5202	कॉटन अपशिष्ट (यार्न अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित)			कॉटन के निर्यात के लिए संविदाएं पोतलदान से पूर्व
	5202 10 00	यार्न अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट सहित) अन्य;		मुक्त	विदेश व्यापार महानिदेशालय के पास पंजीकृत की जाएंगी। सीमा शुल्क अधि-
	5202 91 00	गार्नेटेड स्टॉक		मुक्त	कारियों द्वारा कॉटन की खेपों की निकासी, यह जांचने के बाद कि संविदा पंजीकृत कर ली गई हैं, की जाएंगी।
	5202 99 00	अन्य		मुक्त	
	5203	कॉटन, कार्डेड या कोम्बड			कॉटन के निर्यात के लिए
	5203 00 00	कॉटन, कार्डेड या कोम्बड		मुक्त	संविदाएं पोतलदान से पूर्व विदेश व्यापार महानिदेशालय के पास पंजीकृत की जाएंगी। सीमा-शुल्क अधि- कारियों द्वारा कॉटन की खेपों की निकासी, यह जांचने के बाद कि संविदा पंजीकृत कर ली गई हैं, की जाएंगी।

3. इस अधिसूचना का प्रभाव :

कॉटन (प्रशुल्क कोड-5201, 5202 और 5203) की निर्यात संविदाएं, अब विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा पंजीकृत की जाएंगी। पहले ऐसे पंजीकरण वस्त्र आयुक्त, मुम्बई के पास थे।

[फा. सं. 01/91/180/1194/ए एम 10/निर्यात प्रकोष्ठ]

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2010

No. 12 (RE-2010)/2009-2014

Subject : Registration of contracts for export of cotton by the Directorate General of Foreign Trade—Regarding.

S.O. 2975(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with para 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Central Government hereby makes, with immediate effect, the following amendments in respect of Sl. No. 161A ITC (HS) Classification] in the Notification No. 58/2009-2014 dated 17th August, 2010 read with Notification No. 6 (RE-2010)/2009-2014 dated 30th September, 2010.

2. The existing entries of Notification No. 58/2009-2014 dated 17th August, 2010 read with Notification No. 6 (RE-2010)/2009-2014 dated 30th September, 2010 are substituted as follows :—

Chapter-52

Sl. No.	Tariff Item Code	Unit	Item of Description	Export Policy	Nature of Restriction
1	2	3	4	5	6
161A	5201 5201 00		Cotton, not carded or combed Cotton, not carded or combed Indian cotton	Free	The contracts for export of cotton shall be registered with the Directorate General of Foreign Trade prior to shipment, Clearance of cotton consignments by Customs should be after verifying that the contracts have been registered.
	5201 00 11		Bengal deshi	Free	
	5201 00 12		Indian cotton of staple lengths 20.5 mm (25/32") and below (e.g. oomras, yellow packing, Assam Comillas)	Free	
	5201 00 13		Indian cotton of staple length exceeding 20.5 mm (26/32") and but not exceeding 24.5 mm (30/32")	Free	
	5201 00 14		Indian cotton of staple lengths over 24.5 mm (31/32") to 28 mm	Free	
	5201 00 15		Indian cotton of staple length 28.5 mm (14/32") and above but below 34.5 mm	Free	
	5201 00 19		Indian cotton of all staple length 34.5 mm and above (112/32")	Free	
	5201 00 20		Cotton, other than Indian, of all staple lengths	Free	
	5202		Cotton, waste (including yarn waste and garnetted stock)		The contracts for export of cotton shall be registered with the Directorate General of Foreign Trade prior to shipment, Clearance of cotton consignments by Customs should be after verifying that the
	5202 10 00		Yarn waste (including thread waste) Other :	Free	

1	2	3	4	5	6
	5202 91 00		Garnetted stock	Free	contracts have been registered.
	5202 99 00		Other	Free	
	5203		Cotton, carded or combed		
	5203 00 00		Cotton, carded or combed	Free	The contracts for export of cotton shall be registered with the Directorate General of Foreign Trade prior to shipment, Clearance of cotton consignments by Customs should be after verifying that the contracts have been registered.

3. The effect of this notification :—

The export contracts of cotton (Tariff Codes 5201, 5202 and 5203) will now be registered by the Directorate General of Foreign Trade. Earlier, such registration were with Textile Commissioner, Mumbai.

[F. No. 01/91/180/1194/AM 10/Export Cell]

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade